

Hind. Brain (पश्चात् शास्त्रात्) :-

यह की गावी रोगों का केंद्र है।

- i) myelencephalon  
ii) metencephalon

i) myelencephalon :-

इसे medulla

oblongata के नाम से भी जाना जाता है।

Structure :-

मालिनक का यह साधारी गिरण  
आया है पर्याय spinal cord के क्षेत्र देख के  
कीक नीति द्वारा अनुग्रहित कर सकते हैं।  
दोष है। इनमें मैडलोप्टिक spinal cord, लैंग्ट्रियल  
विशेष अनुग्रहित करनी आयी है बहुत ही।  
इस मालिनकी लम्बाई लगभग 1 फ़ूट तक।  
जोकार वील दोष हैं चैन्डला, कूर्पा और  
जानी लगती वाली रस्तुकों के कुंपड़ी की लक

स्पानल कोड द्वारा एक प्रतिक्रिया के बहुत सारे अनुभव उत्पन्न होता है। इस Spinal code का मार्गिताक के ऊपर जैन्ड्रों से दीर्घांशु स्पारित करता है। इसी द्वारा कुमालीय तंत्रिकाओं की मार्गिताक भी प्रतिक्रिया के द्वारा कुमालीय तंत्रिकाओं की मार्गिताक प्राप्त है। कभी कभी इसी मार्गिताक का प्रबुद्ध शक्ति वाला अवसाधारा होता है। वर्णीकि इह कफालीय तंत्रिकाओं से दीर्घांशु स्पारित करता है। कोणी की केन्द्रक (Nucleus) निहित करता है। जैन्ड्रों के निम्न वाणी गोंगों

में शारीरीक प्रकार उत्पन्न होता है। इतना Spinal code में spinal code में। इतना Spinal code में कि भी गोंति जैन्ड्रों में भी केन्द्रीय तंत्रिकाओं का प्रबुद्ध शक्ति वाला अवसाधारा अना रहता है। इन तंत्रिकाओं ने केन्द्रीय तंत्रिकाओं की medulla oblongata के द्वारा पर उल्लेखनीय स्थिरता करती है।

### Function :-

medulla oblongata के नियन्त्रित कार्य हैं:-

(1) इसका प्रमुख अहल्यपूर्ण कार्य spinal code तथा brain के उच्च तिर केन्द्रीय द्वारा उत्पन्न होता करने का है। इसके द्वारा स्वारण केन्द्र वा काम करता है। इसके द्वारा श्वास स्पारित करता है।

(2) इसका कानूनी मार्गिताक भी तंत्रिकाओं में उत्पन्न किया जाता है। जिसमें जीवी जैन्ड्रों की गतिशीलता के उच्च केन्द्रीय द्वारा करने वाली नीची की ओर भी एवं नीची की ओर भी जाती है।

### 3. विशिष्ट महत्वपूर्ण ऊंची जीवि हड्डी

जिपिर नलिकाएँ, कैपड़े, छाल तथा औंती के गोरे ये गोड़ला के अन्दे पानी द्वारा निर्मित हैं जिसके लिए ये बड़े बड़े बाहरी हों तो इसके छाल एवं फॉर्म द्वारा गत Blood pressure के पास ऊंती और आठि की किटाएँ लिंगांशेत वह संचालित होती है। इसी कारण मृदुला की vital centre of Brain का नाम है। इसके नाम से ये आठि वह शायद हिंगा लिंगांश भी बोलती है और Blood pressure की घाता है।

### 4. रातिवाही कारी में मृदुला गाहितक के द्वारे आठि के निवेदी आठियों के लिए एक नियामित तथा कैलानी गालि केन्द्र के ऊंती कार्य करता है।

### 5. शरीर में शीघ्रवाली समुदाय क्लियर

जीवि:- धन्यवान किटा, उच्चारण किटा, श्वासन किटा जैसे संचार आठि से किया जित करता है। मृदुला का किटाओं की गालि के लिए नियामित करता है लालकु इसपर किंचित रखने के लिए नाम है।

### 6. इसका कार्य छीकला, धन्यवान किटा, उच्चारण किटा, श्वासन, प्राप्ति जपकाना तथा हैंगा आठि एवं नियामित तथा नियंत्रित करता है।

### 7. इसका सर्वसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापार उंचियी अंकित किटाओं में लालुशब्द उपलब्ध कराना है।

बारी के किसी भी जगह वही अंतिमाना की शरीर तक पहुँचाने से बहुत बड़ा दाय होता है।

### (iii) Infrancephalon : →

यह पश्च मस्तिष्क की दूसरा भाग है। यह मेडला के ऊपर स्थित होता है, जो क्रान्तिकारिक लोड तथा अवर्ती vertical के ऊंचा हो गिरकर बनता है।

### Q.) अनुमस्तिष्क (Structure): →

गद्दारा की संरक्षण इसका आकार पश्च पश्चिमी वैशीन जि विभिन्न ऊंची की तुलना में छोटा है। यह मेडला के नीचे काम तथा आविष्कार के लिए लोड के द्वारा उत्पादित होता है। लोड के द्वारा उत्पादित होने वाले अनुमस्तिष्क के अधिकार में अधिक प्रतीक्षा हो पाते हैं। 214 मेडला और प्रमाणितक के पश्च रूप में दिया होता है। इसका अंगुष्ठ spinal code के अधिक आगामी आने जानेवाले भागों के बीच होता है।

अनुमस्तिष्क की दो खण्डों में लौंग गद्दा है। पहला खण्ड medulla oblongata है। इसके ऊंचे दृष्टिकोण नीचे पाते हैं। इसकी दो हemisphere कहते हैं जो दोनों ओर दूर दूर संचित होती हैं। 215 ग्रेनाइल इसकी ऊपरी सतह पर व्यापक प्रवाही तथा आन्तरिक सतह पर संचित पदार्थी पाया जाता है। अस्तिष्क की आन्तरिक तीव्र दृष्टि नीचे आगे होती है।

होता है। इन्हीं superior medullary तथा superior prem-peduncular क्षेत्र हैं। इन्हीं के द्वारा अकुणिटरल केंद्रीय नियंत्रण के लिए उपचार की जाती है। इन्हीं द्वारा अकुणिटरल केंद्रीय नियंत्रण की जाती है।

Marginal nuclei stalledes of हमें पाप भागों में विभिन्न विद्या हैं उन्हीं अतारा हैं जो एक साथ भाग विभिन्न उपचार के लिए उपयोग होती है। Left - sense organs, occipital lobe तथा sensory fiber वह spinal code के होती हैं।

### Functions:-

(i)

According to Freeman

"अकुणिटरल के कार्डियो प्लॉग की लगातार एपिफ्रेनिक और अपेनाई के लगातार उपचार जो विभिन्न तथा अवधूर्ण शारीर की जातियों की विधियों के विचार करना होता है। इस शरीर की विधि को अकुणिटरल की अपेनाई की विधि के अनुसार आदेश देती है। इसके बाद विभिन्न विधियों की विधि विधान विषयता होती है।"

इसके लिये विधान विधि है:-

(ii)

अकुणिटरल के कार्डियो

Reflex activity को लगातार उपचार के लिये समन्वय करता है।

(iii)

आकृतिमालिका का द्वारा

विभिन्न शारीर के जातियों के गद्दों में समन्वय इधापित करता है। इसके द्वारा विभिन्न शारीरिक ऊर्जा प्रक्रियाएँ तथा उनकी विधि होती है।

ज्ञानीया पृष्ठों पर ही यह विषय आवेदन के लिए शारीरिक वैत्तियों की विवरिति करता है। इनीके की अंतुलिय व्यवस्थी है। इसके जानियां ही, जोनी पूरे शरीर की विभिन्न वर्गों में फैलती है। इनीके जानियां ही, जोनी पूरे शरीर की विभिन्न वर्गों में फैलती है।

सीत्र (Pons) : → यह metencephalon का इच्छा अपगांग है।

Structure :-

सीत्र ने ट्रिक्स और माइलिन के तंत्रीय राशि से सीत्र रखते होते हैं। यह उत्तरगारिताल के लागती हैं जैसे ग्रेहम काल्यासित्रम् तथा माइलिन के बीच। इसके बीच में लिंगों के अनुभासिताल के बीच व्यवस्थी है। इसका एक पूर्ण कार्डियनल के गांति लिंगों की विवरण है। यह सीत्र के उनीके Transverse Fibres की ओर प्राप्त है। यहाँ के उनीके उद्देश्य विभिन्न विधिक विशेषज्ञता की है। इसी लिंगों के अनुभासिताल के बीच की ओर ही इसी के द्वारा उत्तरगारिताल की विवरण दिया जाता है।

functions :-

(1) लिंगों वे व्यवस्था यांत्रिक करना द्वारा वायरिंग करते हैं।

(2) कुछ निकाम द्वारा की संवेदन। यह विभिन्न के लिए गणतात्पूर्ण है। आर्यों द्वारा की दृष्टि जायी है तथा द्वारा द्वारा की संवेदन। वायरिंग की उत्तरगारिता है।

3. शरीर (त्य) पर्याप्ति के गहरा  
दार्शनिक विकास ने जाताकू लोता है।

4. बिहार शास्त्रीय में भी  
संकुलक आपित जाता है।

Fifth ventricle का गहरा :-

अह तृतीय  
ventricle के लाला छोड़े अंते द्वितीय गहरा  
जाता अल्लिमार के गहरा स्पृष्ट पारिष्ठात छोड़ा  
है। अर्थात् तृतीय ventricle अल्लिमार  
जाता उप अल्लिमार की एक गहरा गहरा है।  
परं दिखात है यह तृतीय ventricular  
में घुट्टा छोड़ा जाता है। अब आप इसके परिवर्त  
में जाता है। इस आप इसके परिवर्त  
में जाता है। अल्लिमार के उपर्युक्त गहरा  
तृतीय ventricular एक अंतर्गत गहरा  
है। CT spinal code के अंतर्गत के  
अमान जूँ उपर्युक्त गहरा है। अल्लिमार